

विशेष रिपोर्ट

# बुलियन

( फरवरी 2024 )



**smc**

moneywise. be wise.




स्रोत: एसएमसी रिसर्च एवं रॉयटर्स

दिसंबर में रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद जनवरी में, कॉमेक्स पर सोने की कीमतों में तीन महीने से जारी तेजी पर विराम लग गया, क्योंकि कारोबारियों ने अमेरिकी दर में कटौती के लिए मार्च की शुरुआत में सेभावना को कम कर दिया। फेड एक स्थिर बाजार चाहता है और पॉवेल तटस्थ रहेंगे और ब्याज दरों को कम करने की संभावना के बारे में बात कर रहे हैं। इस महीने के अंतिम सप्ताह के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में अमेरिकी उपभोक्ता कीमतों में मध्यम वृद्धि हुई है, जिससे वार्षिक मुद्रास्फीति लगातार तीसरे महीने 3% से नीचे रही और संभावित रूप से फेड को इस वर्ष ब्याज दरों में कटौती शुरू करने की अनुमति मिली। हाल ही में एक रॉयटर्स सर्वेक्षण से पता चला है कि अर्थव्यवस्था के बारे में अनिश्चितता और अमेरिकी ब्याज दर में कटौती से 2024 में सोने की कीमतें रिकॉर्ड बढ़ सकती हैं। फेड को भरोसा है कि मुद्रास्फीति वांछित 2% सीमा तक आ जाएगी, और उन्होंने ब्याज दर में कटौती के लिए विकल्प खुला रखा है, जिससे सोने को समर्थन मिला हुआ है।

## आउटलुक

- सराफा के लिए निकट अवधि का आउटलुक तब तक सीमित रहने की संभावना है जब तक हमें भविष्य में अमेरिका और यूरोपीय संघ की दर में कटौती के समय, गति और गहराई के बारे में बेहतर समझ नहीं मिल जाती।
- छोटी अवधि में सोने और चांदी की दिशा आने वाले आर्थिक आंकड़ों और डॉलर पर उनके प्रभाव, यील्ड और कम से कम दर में कटौती की उम्मीदों से तय होती रहेगी।
- मध्य पूर्व से जुड़े लगातार भू-राजनीतिक जोखिम और अनिश्चितता सोने की कीमतों में प्रीमियम बढ़ा सकती है, जो उस जोखिम प्रीमियम को दर्शाता है जो निवेशक एक सुरक्षित-संपत्ति के लिए भुगतान करने को तैयार हैं।
- निवेशकों को फेडरल रिजर्व से स्पष्ट संदेश मिला कि वे इस साल ब्याज दरें कम करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वे अभी जल्दी में नहीं हैं।
- मजबूत अमेरिकी श्रम बाजार आंकड़ों ने सोने की तेजी को कुछ हद तक कम कर दिया है। लेकिन, अमेरिकी बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती उथल-पुथल कीमती धातु के लिए टोस समर्थन प्रदान कर सकती है और मंदी के सेंटिमेंट को दूर रख सकती है।
- फेड ब्याज दर में कटौती से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे चांदी की मांग बढ़ेगी। सोने के साथ संबंध, खासकर जब सोना महंगा हो जाता है, तो चांदी की कीमतें बढ़ने की संभावना है।
- वर्ल्ड गोल्ड कार्टिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में केंद्रीय बैंक की खरीदारी और ओवर-द-काउंटर बाजारों में गतिविधि के कारण 4,899 टन की रिकॉर्ड सोने की मांग दर्ज की गई।
- केंद्रीय बैंक की खरीदारी 2022 के रिकॉर्ड से 45 टन से कम है क्योंकि उन्होंने पिछले साल 1,037 टन सोना खरीदा था। पिछले दो वर्षों में, केंद्रीय बैंक की मांग पिछले दस वर्षों के औसत से लगभग दोगुनी हो गई है।
- लेकिन इसकी संभावना नहीं है कि केंद्रीय बैंक लगातार तीसरे साल 1,000 टन से अधिक सोना खरीदेंगे। फिर भी डब्ल्यूजीसी को उम्मीद है कि मांग 10 साल के औसत के बराबर बनी रहेगी। विश्लेषकों का कहना है कि जिन कारणों से केंद्रीय बैंक सोने में विविधता ला रहे हैं उनमें कोई बदलाव नहीं आया है और निकट भविष्य में ऐसा होने की संभावना नहीं है।
- खदानों से वार्षिक उत्पादन वर्ष-दर-वर्ष 1% बढ़कर 3,644 टन हो गया, लेकिन 2018 के रिकॉर्ड से कम हो गया। पूरे साल की रीसाइक्लिंग ने सोने की ऊंची कीमतों का जवाब दिया, जो बढ़कर 1,237 टन (वर्ष-दर-वर्ष 9% अधिक) हो गई। परिणामस्वरूप सोने की कुल आपूर्ति वर्ष-दर-वर्ष 3% अधिक रही।



स्रोत: डब्ल्यूजीसी



फरवरी में सोने की कीमतों के अधिक अस्थिरता के साथ 59000-64500 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है और चांदी की कीमतें 67000-74000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

बुलियन

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



**Corporate Office:**  
11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**  
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**  
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रॉकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएं और संबंधित सेवाएं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉर्पोरेट नेशनल कर्मांडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कर्मांडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कर्मांडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहायगी एससीएस स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एंथॉरिटी द्वारा सिक्वोरिटीज मार्केट/कर्मांडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निषिद्ध नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में किसी कर्मांडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

**दिसक्लेमर:** यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राचकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सन्वैलेज एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं है और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कनेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कनेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉपरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता को जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉपरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या बेचने में शामिल है उसकी (अ) समय-समय पर किसी भी कर्मांडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कर्मांडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कर्मांडिटीज के किसी भी प्रकार के सौंपों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।